



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

11 कार्तिक 1934 (श0)  
(सं0 पटना 592) पटना, शुक्रवार, 2 नवम्बर 2012

---

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

-----  
अधिसूचना

1 नवम्बर 2012

सं0 नि०प्रा०/नि० 1-04/2012/9736—बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम, 2011 के धारा-14 (क) (1) के प्रावधानों के आलोक में सहकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 द्वारा बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 के अधीन निर्बाधित सहकारी समितियों के प्रबंध समिति के निर्वाचन संचालन का दायित्व बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को सौंपा गया है।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम 2008 की धारा-5 (3) एवं बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली 2008 के नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सहयोग क्रय-विक्रय संघ सीमित (बिस्कोमान), पटना के निर्वाचन के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित पदाधिकारियों को पर्यवेक्षक (Observer) के रूप में नियुक्त किया जाता है:-

- (i) श्री शंकर झा, कुलसचिव, ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना।
- (ii) श्री अजय कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

3. उक्त सभी पदनामित पदाधिकारी बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 के अन्तर्गत बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पर्यवेक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण में निर्वाचन का संचालन करेंगे।

आदेश से,

एन0 एस0 माधवन,

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 592-571+50-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>